



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2011 (चैत्र 26, 1933)

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16—APRIL 22, 2011 (CHAITRA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 30 मार्च 2011

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्री पंकज सरन, आईएफएस (1982) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 30.4.2011 से आगे छः माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 30.10.2011 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती हैं।

एल. मदन कुमार आर., अवर सचिव

सं. आरएस.43(ix)/2005/28-कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 14 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. आरएस/43(ix)/2005/8-कार्मिक के अनुसरण में राज्य सभा के सभापति ने इस सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में श्री संजय सिंह, भा.पु.से. (एजीएमयू: 1990) की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30 जून, 2011 तक बढ़ा दिया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्रीमती विनी महाजन, आईएएस (पीबी: 87) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 29.4.2011 से आगे छः माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 29.10.2011 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती हैं।

एल. मदन कुमार आर., अवर सचिव

सं. आरएस.3/1/(1)/2011/29-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली सहायक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 31 जनवरी, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में स्वस्थाने आधार पर 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य

पनों के साथ विधायी/समिति/नयाचार/अधिकासी अधिकारी के ग्रेड में शानापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्री श्रीजीत वी.
2. श्री रवीन्द्र कुमार
3. श्री उज्ज्वल कुमार
4. श्री राजीव सक्सेना
5. श्री रोमियो विन्सेन्ट टेरे
6. श्रीमती लीला सरना
7. श्री राजेश कुमार शर्मा
8. श्री सुबोध कुमार पुरी

2. उपर्युक्त नियुक्तियों पर स्वस्थाने प्रोन्नति योजना, जिसे भर्ती और सेवा की शर्तों संबंधी आदेश सं. 5/2009, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2011

सं. ए-32014/1/2005-प्रशा.-I(वि.वि.)--डॉ. बहादुर सिंह, सहायक (विधि) जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 28 जनवरी, 2011 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अधीक्षक (विधि) के पद पर नियुक्त किया गया था, को 25 मार्च, 2011 की अपराह्न से सहायक (विधि) के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2011

सं. 3/आरटीआई/एटीएफई/2011--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क) के अधीन केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिनांक 1.11.2010 को सं. सीआईसी/एटी/डी/10/000111 के तहत जारी विदेशों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट दायित्वों के समयबद्ध अनुपालन के लिए श्री.एम. ए. खां यूसुफी, सदस्य, विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण को विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

न्यायमूर्ति सुभाष संवत्सर, अध्यक्ष

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2011

सं. 14016/14/2005-यूटीएस-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

श्री नरेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (एजीएमयू: 1988) को दिनांक 7 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त करती हैं।

बलदेव राज, अवर सचिव

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2011

सं. 13017/37/2006-एआईएस(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और असम, मेघालय और महाराष्ट्र की सरकारों की सहमति से, एतद्वारा 17.3.2011 से 17.3.2013 तक, पुनः दो वर्षों की अवधि के लिए असम, मेघालय और महाराष्ट्र संवर्ग के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो श्री खांडे नितिन कुमार शिवदास भा.प्र. सेवा (एएम.-04) को अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के विस्तार का अनुमोदन प्रदान करते हैं।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/7/2010-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2010 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में हरियाणा की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत, हरियाणा संवर्ग उन्हें आबंटित करती हैं :--

श्री एन. के. सोलंकी

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति, भारत-संघ और अन्य बनाम सुरिन्दर पाल सिंह द्वारा दायर 2010 की सं. 5982 में चण्डीगढ़ स्थित माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 01.04.2010 के अंतरिम आदेश के अनुसार, चयन समिति की सिफारिशें रिट याचिका के परिणाम के अध्वधीन हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/7/2010-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के

नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2009क हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्रतियों को भरने के लिए, 28 दिसम्बर, 2010 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 22 मार्च, 2011 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली हरियाणा राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती है :--

चयन सूची 2009क (2009 की रिक्रतियों पर)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
	सर्वश्री	
1.	विनय सिंह	04.02.1963
2.	चन्द्र शेखर	30.08.1962
3.	रेणू एस. फुलिया	23.11.1964

2. उपर्युक्त चयन सूची निम्नलिखित मामलों के अंतिम परिणाम के अधधीन है :--

- युद्धबीर सिंह ख्यालिया बनाम कैट और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13381/2006
- रमेश चन्द वर्मा बनाम हरियाणा राज्य बनाम अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 103367/1994
- सुरिन्दर पाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5982/2010

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/7/2010-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2009 की रिक्रतियों पर हरियाणा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर, नियुक्त करती है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें हरियाणा संवर्ग में आबंटित करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
	सर्वश्री
1.	विनय सिंह
2.	चन्द्र शेखर
3.	रेणू एस. फुलिया

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित मामलों के अंतिम परिणाम के अधधीन होगी :--

- युद्धबीर सिंह ख्यालिया बनाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और अन्य द्वारा दायर की गई सी. डब्ल्यू. पी. सं. 13381/2006
- रमेश चन्द वर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा दायर की गई सी. डब्ल्यू. पी. सं. 103367/1994
- सुरिन्दर पाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर की गई सी. डब्ल्यू. पी. सं. 5982/2010

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2011

सं. 14015/27/2011-अ.भा.से.-I-क--श्री एस. पुत्तास्वामी द्वारा दायर की गई ओ.ए. सं. 2758/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 23.12.2010 के आदेश के अनुसरण में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वर्ष 2007 के लिए राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करने वाली 20.11.2007 को जारी की गई पूर्व अधिसूचना फा. सं. 14015/11/2007-अ.भा.से.-I में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2007 (1.1.2006 से 31.12.2006 तक हुई रिक्रतियों के लिए) के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत कर्नाटक के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट की रिक्रतियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 1.3.2011 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत 29.3.2011 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली कर्नाटक संवर्ग के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की पुनरीक्षण चयन सूची को अधिसूचित करती है :--

पुनरीक्षण चयन सूची 2007

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म-तिथि
	सर्वश्री	
1.	सत्यमूर्ति के. एस.	03.03.1956
2.	प्रभाकरप्पा एन.	01.02.1953
3.	अदोनी सैयद सलीम	01.05.1956
4.	पुत्तास्वामी एस.	05.03.1952
5.	नन्द कुमार बी. जी.	21.09.1955
6.	चक्रवर्ती मोहन	19.05.1959

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण; प्रधान न्यायपीठ के निदेशों के मद्देनजर वर्ष 2007 के लिए दिनांक 20.11.2007 को अधिसूचित

की गई कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची उपर्युक्त सीमा तक संशोधित की जाती है।

(राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और राष्ट्रपति के नाम से)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/27/2011-अ.भा.से.-I-ख--श्री एस. पुत्तास्वामी द्वारा दायर की गई ओ.ए. सं. 2758/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 23.12.2010 के आदेश के अनुसरण में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वर्ष 2007 की चयन सूची में शामिल राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित करने वाली 20.11.2007 को जारी की गई पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2007 के लिए पुनरीक्षण चयन सूची (1.1.2006 से 31.12.2006 तक हुई रिक्तियों के लिए) में उनका नाम शामिल किए जाने के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों पर कर्नाटक के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा पर अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं और उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा का कर्नाटक संवर्ग आबंटित करती हैं :--

क्रम सं. अधिकारी का नाम

- | क्रम सं. | अधिकारी का नाम |
|----------|--------------------|
| | सर्वश्री |
| 1. | सत्यमूर्ति के. एस. |
| 2. | प्रभाकरप्पा एन. |
| 3. | अदोनी सैयद सलीम |
| 4. | पुत्तास्वामी एस. |
| 5. | नन्द कुमार बी. जी. |
| 6. | चक्रवर्ती मोहन |

*श्री एस. पुत्तास्वामी की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति उनके (श्री एस. पुत्तास्वामी) द्वारा दायर की गई ओ. ए. सं. 2758/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 23.12.2010 के आदेश के निदेशों के अनुसरण में है।

2. श्री एस. पुत्तास्वामी द्वारा दायर की गई ओ. ए. सं. 2758/2010 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के दिनांक 23.12.2010 के आदेश के निदेशों के मद्देनजर वर्ष 2007 की कर्नाटक के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची से 20.11.2007 को पूर्व अधिसूचित नियुक्तियां उपर्युक्त सीमा तक संशोधित की जाती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2011

सं. 14013/01/2011-अ.भा.से.-(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके सामने दर्शाई गई तारीख(खों) से स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री डी. ए. सत्या	2000	23.02.2010
2.	श्री जे. जी. हिंगराजीया	2000	23.02.2010
3.	श्री एम. बी पटेल	2000	23.02.2010
4.	श्री पी. ए. शाह	2000	12.03.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक मार्च 2011

सं. 14012/06/2011-अ.भा.से.-(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में राजस्थान राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	सुश्री आरती डोगरा	2006	29.08.2008
2.	श्री गौरव गोयल	2006	29.08.2008
3.	श्री रोहित गुप्ता	2006	29.08.2008
4.	सुश्री शिल्पा	2006	29.08.2008
5.	श्री वी. श्रावणा कुमार	2006	29.08.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14013/08/2010-अ.भा.से.-(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में तमिलनाडु राज्य

संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री पी सीथारमन	1998	09.03.2008
5.	श्री आर. पलानीस्वामी	2000	09.03.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2011

सं. ए-22011/1/2011-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री आर. जगजोती, सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी), पत्तन विभाग, पुडुच्चेरी, को दिनांक 1 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में पे बैंड-3 (पी.बी.-3) 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. (ग्रेड पे) में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (श्री वे. नारायणसामी) के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

2. श्री आर. जगजोती की नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री के सेवाकाल के साथ सह-समाप्त अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2011

सं. 5/पीए-II/2011--सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 48(क) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री वी. बी. धावले का अनुरोध स्वीकार होने के परिणामस्वरूप वे 16 फरवरी, 2009 पूर्वाह्न में भारतीय विदेश सेवा शाखा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

कार्तिक पांडे, अवर सचिव (एफएसपी)

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2011

सं. 10/पी.बी.-I/2011--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री बी. एस. आर. नायर (जन्म तिथि 27.02.1951) 28 फरवरी, 2011 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. बी. वर्मा, अवर सचिव (पी.बी.-I और III)

कार्यालय उप प्रमुख न्याचार (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2011

सं. डी-III/460/सी एफ-69/2009--भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली

में मोल्दोवा गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री पुरषोत्तम भगेरिया की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री पुरषोत्तम भगेरिया के कौंसली क्षेत्राधिकार में संपूर्ण भारत होगा, जिसका केंद्र नई दिल्ली होगा।

एस. इन्बशेखर, उप प्रमुख न्याचार (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2011

सं. 15: (फा. सं. ए-19013/02/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार सिंह (भा. रा. से.: सी. शु. एवं के. उ. शु.) को दिनांक 21 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2011

2011 की सं. 3: (फा. सं. ए-32014/01/2008-प्रशा.-1क)--सीएस, व्यय विभाग के दिनांक 10 फरवरी, 2011 के अनुसरण में राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सी एस एस एस) के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के रूप में तदर्थ आधार पर दिनांक 10 फरवरी 2001 से 30 जून 2011 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. नाम

(सर्वश्री/सुश्री)

1. रविन्दर नाथ
2. विमला मोटवानी
3. पी. एस. रावत
4. सुश्री ज्योति मिरानी

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2011

सं. 4/2011 [फा. सं. ए-19011/4/2011-एस ओ (ए डी-आई सी) सीस्टेट]--राष्ट्रपति, डॉ. पी. बाबू, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

कोलकाता-IV आयुक्तालय को दिनांक 21 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, अहमदाबाद में सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2011

सं. 10/07/2010-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार श्री आर. वैद्यनाथन, उप सचिव (सीएसएस), अन्तर्राष्ट्रीय परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड-3 में 15,600--39,100+7,600 रुपए के ग्रेड वेतन में 04 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नै में पंजीयक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2011

सं. 12/12/2010-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार श्री बृज मोहन सिंह राणा, सहायक निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड-3 में 15,600--39,100+6,600 रुपए के ग्रेड वेतन में 25 अक्टूबर 2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, चण्डीगढ़ में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

सं. 11/08/2010-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार डॉ. दीपक तालुकदार, विधि अधिकारी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग, असम सरकार को प्रतिनियुक्ति आधार पर पे-बैंड-3 में 15,600--39,100 + 6,600 रुपए के ग्रेड वेतन में 26 अक्टूबर 2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती हैं।

जे. एस. फौगाट, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2011

सं. ए-32014/06/2010-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' श्रीमती सरोज बाला शर्मा,

को तदर्थ आधार पर पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर पी. बी.-2 में (रु. 9,300--34,800+ग्रेड पे रु. 4,800/-) में दिनांक 22 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30 जून 2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

सं. ए-32014/06/2010-संवर्ग--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' श्रीमती निर्मल अबै को तदर्थ आधार पर पूर्ति प्रभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के पद पर पी. बी.-2 में (रु. 9,300--34,800+ग्रेड पे रु. 4,800/-) में दिनांक 22 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30 जून 2011 तक की अवधि के लिए अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

संजय शंकर, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. 11/2010 (फा. सं. 06/2339/2006-मा. सं. वि.-1/1329)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस कार्यालय में कार्यरत श्री ए. के. मेहरोत्रा, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) दिनांक 31 मार्च, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. एस. विष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. 1 (1)/2009/विस्फोटक--पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री पी. वी. येद्ला अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31 मार्च 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

ए. एस. धालीवाल, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2011

सं. ए-12011/03/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री असित सिंह, भा. रा. से. (आईटी : 1990) को उनके 7 वर्ष के संयुक्त केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 09 जून 2011 तक अथवा मंत्री जी के साथ सह-पर्यवसान आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद न कर दें अथवा अगले आदेश होने

तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए दिनांक 20 जनवरी 2011 से "पार्ष्विक स्थानापन्न" आधार पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक स्तर पर, राज्य मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस), श्री आर. पी. एन. सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

दिनांक 24 मार्च 2011

सं. ए-32011/01/2007-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2011 के का. ज्ञा. संख्या 5/27/2010-सीएस.-II (ए) के द्वारा वरिष्ठता कोटे के लिए जोनिंग स्कीम के तहत वर्ष 2009 की चयन सूची में नाम सम्मिलित होने पर, राष्ट्रपति, सीएसएसएस संवर्ग के ग्रेड 'क' और 'ख' (तदर्थ) के आशुलिपिक ग्रेड के श्री भोज सिंह (अ.जा.) (सीएसएल सं. 66/1991) को 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करती है।

अरूणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 मार्च 2011

सं. ए-32011/03/2010-मा.सं.-II--राष्ट्रपति महोदया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 01 फरवरी 2011 के का.ज्ञा. सं. 5/3/2010-सी. एस.-II (ए) के अनुसरण में श्री वाई. थंगराज को दिनांक 01 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न) से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में पे-बैंड (पीबी-3) 15,600--39,100/- रुपए, ग्रेड-पे 6,600/- रुपए में नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष 2008 के लिए सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करती है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

रसायन एवं पेट्रोलियम विभाग

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. ए-12011/06/2010-स्था. (एनपीपीए)--अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप श्री आर. के. जैन, अनुभाग अधिकारी दिनांक 31 मार्च 2011 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

ओम प्रकाश, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2011

सं. ए-22017/01/2011-प्रशा./स्था.--सीएसएस के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के रोटेशनल स्थानान्तरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 जनवरी 2011 के आदेश सं. 5/9/2010-सी. एस.-I (यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अवर सचिव श्री आर. बी. एस. नेगी (सीएसएल सं. 5704) को कोयला मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वेतन संरचना पी. बी.-3, 15,600--39,100/-रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में 25 मार्च, 2011 (पूर्वा.) से नियुक्त करने की स्वीकृति देते हैं।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2011

सं. पी-I/481/2010-स्था.--राष्ट्रपति ने, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 फरवरी 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2010-सी एस-II (ए) के अनुसार सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में श्री वी. के. शर्मा के नाम को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उनके वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के रूप में खान मंत्रालय में दिनांक 14 फरवरी 2011 से मंत्रालय में चयन सूची वर्ष 2010 के लिए वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.)+ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में सीएसएसएस के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है।

नीता गुप्ता, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2011

सं. ए-32013/06/2009-रा.प्रो.शा. (स्था.)--राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला के श्री बी. आर. मीणा, निदेशक ग्रेड-II, को महानिदेशक के पद पर, पे बैंड (4) 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड पे 10,000/- रुपए में, 28 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में अगले आदेश जारी होने तक पदोन्नत करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. ए-38012/7/2010-एसआरए--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में समूह 'क' सामान्य केन्द्रीय सेवा के श्री सुधांशु कुमार दास, सहायक निदेशक (एस एण्ड आर) (तदर्थ) अधिवर्षिता की आयु होने

पर 31 मार्च, 2011 के अपराह्न से सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस. जानकीरामन, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. ए-19016/01/2011-प्रशा.1 (ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव, श्री राम प्रकाश को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर 31 मार्च 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

सं. ए-19014/01/2005-प्रशा.1 (ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव, श्री एन. के. गुप्ता को अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने पर 31 मार्च 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जुलाई 2010

सं. ए. 22012/88/1999-आईएफएस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने श्री विजय सिंह चरक द्वारा दायर सीए सं. 6660/2000 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.02.2007 के निदेश के अनुसरण में भारतीय वन सेवा के जम्मू एवं कश्मीर संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति की दिनांक 4, 5, जनवरी, अप्रैल, 1 और 21 मई, 2010 को आयोजित बैठक में वर्ष 1980 से 2006 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए तैयार की गई सूची को अनुमोदित कर दिया है :--

चयन सूची 1980

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	बी.एल. टिक्कू	25.12.1936
2.	एस.आई.एच. काजमी	18.02.1937
3.	बी.पी. मोदी	27.05.1939
4.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940

*क्र. सं. 4 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल किया

गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है।

चयन सूची 1981

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	बी.पी. मोदी	27.05.1939
2.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
3.	एम.ए. कावूसा	27.11.1945
4.	जी.एच. सिद्धिकी	03.06.1941

*क्र. सं. 2 पर अधिकारी के नाम को शामिल किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है।

चयन सूची 1982

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
2.	बी.पी. मोदी	27.05.1939
3.	एम.ए. कावूसा	27.11.1945
4.	जी.एच. सिद्धिकी	03.06.1941

*क्र. सं. 1 पर अधिकारी के नाम को शामिल किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है।

चयन सूची 1983

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
2.	शफात अहमद	12.11.1950
3.	एस.के. खजुरिया	22.04.1951
4.	बी.पी. मोदी	27.05.1939
5.	एस.पी. खजुरिया	02.12.1940
6.	एम.ए. कावूसा	27.11.1945
7.	जी.एच. सिद्धिकी	03.06.1941
8.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
9.	बी.के. शर्मा	26.07.1938
10.	अब्दुल राशिद केमा	01.08.1944

1	2	3
	सर्वश्री	
11.	शहनाज नकशबंदी	25.03.1945
12.	वाई.एस. नरसिंघिया	24.04.1939
13.	एस.सी. शर्मा	28.09.1939
14.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
15.	ए.आर. वादू	28.03.1944
16.	वी.के. जादू	15.07.1946
17.	चन्दर मोहन सेठ	02.03.1949

*क्र. सं. 1, 8 और 14 पर अधिकारी के नाम को शामिल किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है।

चयन सूची 1984

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
1.	एस.सी. शर्मा	28.09.1939
2.*	एस.एस. बाली	15.08.1945

*क्र.सं. OA एवं OB और 2 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA और OB पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1985

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
1.	एस.सी. शर्मा	28.09.1939
2.*	एस.एस. बाली	15.08.1945

*क्र.सं. OA एवं OB और 2 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA और OB पर

अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1986

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	मो. साफी	13.03.1932
1A.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
1B.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
2.	एस.सी. शर्मा	28.09.1939
3.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
4.	ए.आर. वादू	28.03.1944

*क्र.सं. 1A एवं 1B और 3 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. 1A और 1B पर अधिकारी के नाम को आई एफ एस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1987

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
1.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
2.	ए.आर. वादू	28.03.1944

*क्र.सं. OA एवं OB और 2 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA और OB पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1988

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
1.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
2.	ए.आर. वादू	28.03.1944

*क्र.सं. OA एवं OB और 1 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA और OB पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1989

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	मुखरजीत शर्मा	28.09.1954
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
2.	ए.आर. वादू	28.03.1944
3.	वी.के. जादू	15.07.1946
4.	चन्दर मोहन सेठ	02.03.1949
5.	शमीम महोम्मद खान	20.12.1951
6.	पीर बशीर अहमद कादरी	18.11.1944
7.	सुभाष चन्दर	30.04.1952
8.	सूरज प्रकाश शर्मा	13.10.1956

*क्र.सं. 1A, 1B और 1C पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. 1A, 1B और 1C पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1990

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
1.	शमीम महोम्मद खान	20.12.1951
2.	पीर बशीर अहमद कादरी	18.11.1944
3.	सुभाष चन्दर	30.04.1952

1	2	3
4.	सूरज प्रकाश शर्मा	13.10.1956
5.	हरिन्दर सिंह सलाधिया	27.04.1954
6.	उपिन्दर पचनंदा	25.09.1955
7.	ए.बी. कैयूम खान	10.02.1952
8.	मोहम्मद शफीक खान	17.05.1953
9.	मुनराज सिंह	20.07.1954
10.	ललित कुमार शर्मा	25.02.1955
11.	मंजूर अहमद	11.04.1953
12.	मोहम्मद हुसैन	10.03.1954
13.	हफीजुल्लाह सिद्धिकी	18.05.1953
14.*	महेश चन्दर	18.05.1956
15.	अरुण कुमार	14.11.1956
16.	असगर इनायतुल्लाह	15.04.1952
17.*	एजाज अहमद बट	15.05.1954
18.	ए. आर. लट्टू	31.03.1944
19.	जे.बी. सिंह	01.01.1948

*क्र.सं. OA, OB, OC और 17 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA, OB, और OC पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1991-92

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
1.	विजय सिंह चरक	05.02.1954
2.	असगर इनायतुल्लाह	15.04.1952
3.*	एजाज अहमद बट	15.05.1954

*क्र.सं. OA, OB, OC और 3 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA, OB और OC पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1992-93

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
सर्वश्री		
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
1.	अशोक कुमार गुप्ता	01.07.1949
2.	असगर इनायतुल्लाह	15.04.1952

क्र.सं. OA एवं OB और OC पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA, OB और OC पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1993-94

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
सर्वश्री		
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
1.	अशोक कुमार गुप्ता	01.07.1949
2.	असगर इनायतुल्लाह	15.04.1952
3.*	एजाज अहमद बट	15.05.1954
4.	ए. आर. लट्टू	31.03.1944

*क्र.सं. OA, OB, और OC और 3 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA, OB और OC पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1994-95

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
सर्वश्री		
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
OB.*	एम.ए. सोहरावर्दी	27.12.1939
OC.*	एस.एस. बाली	15.08.1945
1.*	एजाज अहमद बट	15.05.1954
2.	ए. आर. लट्टू	31.03.1944

*क्र.सं. OA, OB, और OC और 1 पर अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA, OB और OC पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1994-95 कोई रिक्ति नहीं

चयन सूची 1995-96

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
सर्वश्री		
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
1.	ए.आर. लट्टू	31.03.1944
2.	निसार अहमद दरजी	27.04.1958
3.	निसार हुसैन हकीम	01.10.1952

*क्र.सं. OA अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1996-97

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
सर्वश्री		
OA.*	एस.डी.ए. सलारिया	19.02.1940
1.	निसार अहमद दरजी	27.04.1958
2.	निसार हुसैन हकीम	01.10.1952
3.	बी.एल. जादू	10.11.1951

1	2	3
	सर्वश्री	
4.	एम.ए. टाक	15.07.1954
5.	आर.एस. जसरोटिया	22.08.1956
6.	अश्वनी के. गुप्ता	25.08.1958
7.	एम.एम. गुप्ता	22.10.1954

*क्र.सं. OA अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1998

क्र. सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA.*	एस. एस. बाली	15.08.1945
1.	एजाज अहमद बट	15.05.1954

*क्र.सं. OA अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र.सं. OA पर अधिकारी के नाम को आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 1999

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	वी. के. रैना	20.12.1952
2.	एस. के. कोहली	24.08.1957
3.	फारूक अहमद गीलानी	18.04.1961
4.	जावेद इकबाल पंजू	01.10.1958

चयन सूची 2000

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	अशोक कुमार मिश्रा	12.09.1950
2.	ए. जी. हाजम	06.06.1959
3.	नरेन्द्र सिंह	21.01.1953

चयन सूची 2001

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA*	एस. एस. बाली	15.08.1945
1.	एम. ए. हकाक	08.03.1949
2.	एस. ए. हैदरी	09.03.1955

*क्र. सं. OA अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र. सं. OA पर अधिकारी के नाम को आई एफ एस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 2002

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
OA*	एस. एस. बाली	15.08.1945
1.	ए. आर. हजारी	02.06.1956

*क्र. सं. OA अधिकारी के नाम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र की मंजूरी के अध्वधीन है। क्र. सं. OA पर अधिकारी के नाम को आई एफ एस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 5(4) के दूसरे परन्तुक के अनुरूप चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है।

चयन सूची 2003--कोई रिक्ति नहीं

चयन सूची 2004--कोई रिक्ति नहीं

चयन सूची 2005

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	जी. डी. चलोतरा	20.10.1956
2.	एम. पी. डोगरा	10.04.1957
3.	मोहम्मद मंजूर हुसैन	01.05.1953

चयन सूची 2006

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
	सर्वश्री	
1.	बी. के. भगत	11.04.1954
2.	मियाँ जाविद हुसैन	01.03.1957
3.	समीर भारती	28.01.1960

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मार्च 2011

शुद्धि-पत्र

सं. 2-64/2001-एफ.ई.--इस मंत्रालय की दिनांक 11.02.2011 की अधिसूचना संख्या 2-64/2001-एफ.ई. के आंशिक संशोधन में डॉ. वाई. पी. सिंह की आई.सी.एफ.आर.ई., देहरादून में सुनम्प्य सम्पूरक योजना के तहत 37,400--67,000/- रु. + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. के वेतनमान में वैज्ञानिक 'घ' से वैज्ञानिक 'ड' के पद पर पदोन्नति की तिथि को "31.12.2010" के स्थान पर "30.12.2010" पढ़ा जाए।

मालती रावत, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 29 मार्च 2011

सं. ए-121025/11/2008-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मोहित कुमार पत्रलेख को दिनांक 24.11.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. मोहित कुमार पत्रलेख को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. पत्रलेख नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12025/145/2009-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. क्षीरसागर अश्विनी मछिन्द्रा को दिनांक 11.05.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. (पीबी-3) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. क्षीरसागर अश्विनी मछिन्द्रा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. क्षीरसागर अश्विनी मछिन्द्रा नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. ए-12025/50/2009-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कृष्णा बिस्वास को दिनांक 10.01.2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में अंतःस्त्राविकी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अप्रैल 2011

सं. ए-22012/1/2006-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 के का. जा. संख्या 5/21/2010-सीएस-II

के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित आशुलिपिक समूह 'ग' श्रीमती कल्पना गोयल को वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. तथा ग्रेड वेतन 4,800/- रु. में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (आमेलित) के रूप में नियुक्त करती हैं। तदर्थ पदोन्नति की अवधि 30 जून, 2011 तक अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से नियमित आशुलिपिक समूह 'क' और 'ख' (आमेलित) के उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

गोपाल दास, निदेशक (प्रशा.)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली-3, दिनांक 5 अप्रैल 2011

सं. 15-6/2008-स्था.--राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार के कार्यालय में कार्यरत श्री मोहन कृष्ण खन्ना, आई.ए.एस. (राज: - 1074) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर तारीख 31 मार्च, 2011 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

ए. के. निगम, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 मार्च 2011

सं. 4(804)/2009-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (एन.एफ.एस.जी.), (कर्मचारी कोड सं. 339) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हो रही हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(851)/2010-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (एन.एफ.एस.जी.), श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, (कर्मचारी कोड सं. 328) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

सं. 4(330)/87-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक 'एफ' डॉ. (श्रीमती) बी. वसन्ता (कर्मचारी कोड सं. 154) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2011 को सेवानिवृत्त होंगी।

राजकुमार मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110116, दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. 13-2/2011-एसपीजी--श्री एस. सामंत (भारतीय डाक सेवा - 1974), सदस्य (प्रौद्योगिकी), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डाक भवन,

नई दिल्ली 28.02.2011 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2011

सं. ईआरबी-1/2010/2/59--राष्ट्रपति जी, श्री संजोय मुखर्जी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल लेखा सेवा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (व्यय) की 28.01.2011 के पूर्वाह्न से उच्च प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने पर सलाहकार, वित्त (व्यय), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 1 अप्रैल 2011

सं. ईआरबी-1/2008/2/26--राष्ट्रपति जी, श्री कमलेश गुप्ता, एचएजी/भारतीय रेल यातायात सेवा, सलाहकार (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड की 11.03.2011 के पूर्वाह्न से ग्रेड रु. 75,500--80,000/- में पदोन्नति होने पर अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

विजय कुमार गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च 2011

सं. ए-12023/4/2011-ई-1--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निजी सचिव श्री राजिन्दर प्रसाद को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड-2 और 4,800/- रु. के ग्रेड पे में सह-अवसानी आधार पर दिनांक 20.01.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें तब तक अथवा कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) के सहायक सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-12023/3/2011-ई-1--राष्ट्रपति, श्री मनोज पुरुषोत्तम भाई अकुर को 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 और 6,600/- रु. के ग्रेड पे में सह-अवसानी आधार पर दिनांक 04.02.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री उनकी सेवा लेना चाहें तब तक अथवा कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (डॉ. तुषार ए. चौधरी) के अपर निजी सहायक के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/10/2005-ई-1--इस मंत्रालय की दिनांक 05.10.2010 की अधिसूचना सं. ए-19011/10/2005-ई-1 के अनुक्रम में और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.03.2011 के आदेश सं. 27/39/2010-ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सरोज कुमार दास, भा.प्र.से. (हिमाचल प्रदेश : 80) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 27.02.2011 से आगे 2 माह और 3 दिन तक अर्थात् दिनांक 30.04.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19011/4/11-ई-1--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 11.12.2010 के कार्यालय आदेश सं. 12016/3/जेएजी/2010-आईएसएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारी श्री हंसराज यादव को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में उनकी तदर्थ पदोन्नति होने पर 15,600--39,100/- रु. के पे बैंड-3 और 7,600/- रु. के ग्रेड पे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2011

सं. 2/2011-मि. सं. ए-35018/2/2009-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, विद्युत अधिनियम 2003, (2003 का 36) की धारा 70 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुरदयाल सिंह, सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, को प्रतिनियुक्ति आधार पर 80,000/- (स्पाई) रुपये के वेतन श्रेणी में भारत सरकार में सचिव के पदेन स्तर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर उनके नियुक्ति की तिथि 25.03.2011 से 30.06.2011 जो कि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक या अगले आदेशों तक नियुक्ति करते हैं।

मधुरक सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 2011

सं. 01/2011 फा. सं. 2/1/2011-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आलोक सिंह, आईपीएस (यूपी : 95) को 20 जनवरी, 2011 (पूर्वाह्न) अर्थात् पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 'आन लेटरल शिफ्ट' आधार पर निदेशक के स्तर पर माननीय जल संसाधन मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं और उनकी तैनाती केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की अवधि में से शेष अवधि तक अर्थात् 14.02.2015 तक अथवा मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा जब वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर दें तब तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2011

सं. 2/2011 फा. सं. 5/11/2008-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 फरवरी, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/3/2010-सीएस. II (ए) के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय में सुश्री जेनी राज, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित निजी सचिव का नाम, निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) की वर्ष, 2009 की चयन सूची में शामिल होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 01.01.2011 से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान

निजी सचिव के ग्रेड (वेतन बैंड 3, रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- रु. ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. सुश्री जेनी राज का वरीयता क्रम प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बिना वर्ष 2009 की चयन सूची के लिए उसी क्रमांक में रहेगा जिसके तहत उनका नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 फरवरी 2011 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में रखा गया है।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 30th March 2011

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Shri Pankaj Saran, IFS (1982), Joint Secretary in the Prime Minister's Office for a period of six months beyond 30.04.2011 i.e. upto 30.10.2011 or until further orders, whichever is earlier.

L. MADANA KUMAR R., Under Secy.

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Smt. Vini Mahajan, IAS (PB : 87), Joint Secretary in the Prime Minister's Office for a period of six months beyond 29.04.2011 i.e. upto 29.10.2011 or until further orders, whichever is earlier.

L. MADANA KUMAR R., Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 30th March 2011

No. RS/43(ix)/2005/28-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/43(ix)/2005/8-Perl. dated the 14th January, 2011, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU : 1990) as Director (Security) in this Secretariat till 30th June, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

No. RS-3/1(1)/2011/29-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Senior Legislative/Committee/Protocol/Executive Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules, on in situ basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 31st January 2011 and untill further orders :—

1. Shri Sreejith V.
2. Shri Ravinder Kumar
3. Shri Ujjwal Kumar
4. Shri Rajiv Saxena
5. Shri Romeo Vincent Tete
6. Smt. Leela Sarna
7. Shri Rajesh Kumar Sharma
8. Shri Subodh Kumar Puri

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in the scheme of in situ promotion

notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November 2009.

S. RANGARAJAN, Dy. Dir.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 25th March 2011

No. A-32014/1/2005-Admn.-I(L.D.)—Dr. Bahadur Singh, Assistant (Legal) who was appointed to the post of Superintendent (Legal) on ad hoc basis in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 28th January, 2011 stands reverted to his substantive post of Assistant (Legal) with effect from the afternoon of 25th March 2011.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

APPELLATE TRIBUNAL FOR FOREIGN EXCHANGE

New Delhi, the 11th March 2011

No. 3/RTI/ATFE/2011—In terms of directives issued by Central Information Commission Under Section 19(8)(a) of Right to Information Act, 2005 Vide No. CIC/AT/D/10/000111 dated 01.11.2010, for time bound implementation of obligations under Section 4 of the Act, Shri M. A. Khan Yusufi, Member, ATFE is designated as the Transparency Officer for the Appellate Tribunal for Foreign Exchange.

JUSTICE SUBHASH SAMVATSAR, Chairperson

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st March 2011

No. 14016/14/2005-UTS-I—In exercise of the powers conferred by Clause(1) of Article 239 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Narendra Kumar, IAS (AGMU : 1988) as Administrator of the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli with effect from the forenoon of 7th March, 2011, until further orders.

BALDEV RAJ, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th March 2011

No. 13017/37/2006-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam-Meghalaya and Maharashtra, the Central Government hereby accords approval of extension of Inter-cadre deputation of Shri Khade Nitin Kumar Shivdas, IAS (AM : 04), from Assam-Meghalaya to Maharashtra Cadre for a further period of two years beyond

17.03.2011 i.e. upto 17.03.2013 or until further orders, whichever is earlier.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/7/2010-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of Non-State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2010, on probation until further orders and to allocate him to the Haryana Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Name of the Officer

Shri N. K. Solanki

2. The appointment of above officer, as per interim order dated 01.04.2010 of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh in No. 5982 of 2010 filed by Surinder Pal Singh Vs. UoI and Ors the recommendations of the Selection Committee shall be subject to outcome of the Writ Petition.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/7/2010-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Haryana containing the following names prepared on 28th December 2010 under Regulation 5(5) and approved on 22nd March, 2011 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Haryana under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List Year 2009A :—

SELECT LIST 2009 (against vacancies of 2009)

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Vinay Singh	04.02.1963
2.	Shri Chander Shekhar	30.08.1962
3.	Smt. Renu S. Phulia	23.11.1964

2. The above Select List shall be subject to final outcome of the following cases :—

- (i) CWP No. 13381/2006 filed by Yudhbir Singh Khyalia Vs CAT & Ors.
- (ii) CWP No. 103367/1994 filed by Ramesh Chand Verma Vs. State of Haryana & Ors.
- (iii) CWP No. 5982/2010 filed by Surinder Pal Singh Vs. UOI & Ors.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/7/2010-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies of 2009 determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government on probation until further orders and to allocate them to the Haryana Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

SELECT LIST 2009A (against vacancies of 2009)

Sl.No. Name of the Officer

1. Shri Vinay Singh
2. Shri Chander Shekhar
3. Smt. Renu S. Phulia

2. The appointment of above officers shall be subject to final outcome of the following cases :—

- (i) CWP No. 13381/2006 filed by Yudhbir Singh Khyalia Vs CAT & ors.
- (ii) CWP No. 103367/1994 filed by Ramesh Chand Verma Vs. State of Haryana & ors.
- (iii) CWP No. 5982/2010 filed by Surinder Pal Singh Vs. UOI & ors.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 4th April 2011

No. 14015/27/2011-AIS (I)-A—In pursuance of the order dated 23.12.2010 of the Hon'ble CAT Principal Bench in O. A. No. 2758/2010 filed by Shri S. Puttaswamy and, in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service

(Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and in partial modification of earlier notification F. No. 14015/11/2007-AIS-I issued on 20.11.2007 notifying the Select List of State Civil Service officers for the year 2007 the President is pleased to notify the Review Select Lists of State Civil Service officers of Karnataka Cadre containing the following names prepared on 01.03.2011 under Regulation 5(5) and approved by UPSC on 29.03.2011 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Karnataka under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List year 2007 (for the vacancies occurring from 01.01.2006 to 31.12.2006) :—

REVIEW SELECT LIST 2007

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Sathyamurthy K. S.	03.03.1956
2.	Prabhakarappa N.	01.02.1953
3.	Adoni Syed Saleem	01.05.1956
4.	Puttaswamy S.	05.03.1952
5.	Nandakumar B. G.	21.09.1955
6.	Chakravarthy Mohan	19.05.1959

2. In the light of directions of Hon'ble CAT Principal Bench the Select List of SCS Officers of Karnataka for the year 2007 notified on 20.11.2007 stands modified to the above extent.

(By order and in the name of President)

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/27/2011-AIS (I)-B—In pursuance of the order dated 23.12.2010 of the Hon'ble CAT Principal Bench in O. A. No. 2758/2010 filed by Shri S. Puttaswamy and, in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 in partial modification of earlier notification issued on 20.11.2007 notifying the appointment of State Civil Service officer included in the Select List of 2007, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Karnataka to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulation in consultation with the State Government on the basis of inclusion of their names in the Review Select List for the year 2007 (for the vacancies occurring from 01.01.2006 to 31.12.2006) on probation until further orders and to allocate them to

Karnataka Cadre of IAS, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl.No. Name of the Officer

1. Sathyamurthy K. S.
2. Prabhakarappa N.
3. Adoni Syed Saleem
4. Puttaswamy S.
5. Nandakumar B. G.
6. Chakravarthy Mohan

*The appointment of Sh. Puttaswamy S. to IAS is strictly in pursuance of directions of Hon'ble CAT Principal Bench order dated 23.12.2010 in O.A. No. 2758/2010 filed by Shri S. Puttaswamy.

2. In the light of directions of Hon'ble CAT Principal Bench order dated 23.12.2010 in O.A. No. 2758/2010 filed by Shri S. Puttaswamy the appointments notified earlier on 20.11.2007 from the Select List of SCS Officer of Karnataka for the year 2007 stands modified to the above extent.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 13th January 2011

No. 14013/01/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
1.	Shri D. A. Satya	2000	23.02.2010
2.	Shri J. G. Higrjia	2000	23.02.2010
3.	Shri M. B. Patel	2000	23.02.2010
4.	Shri P. A. Shah	2000	12.03.2010

NAVNEET MISRA, Under Secy.

The March 2011

No. 14012/06/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Rajasthan, in the Indian

Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
	(S/Sh.)		
1.	Arti Dogra (Ms.)	2006	29.08.2008
2.	Gaurav Goyal	2006	29.08.2008
3.	Rohit Gupta	2006	29.08.2008
4.	Shilpa (Ms.)	2006	29.08.2008
5.	V. Saravana Kumar	2006	29.08.2008

NAVNEET MISRA, Under Secy.

No. 14013/08/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Tamil Nadu, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
1.	Shri P. Seetharaman	1998	09.03.2008
2.	Shri R. Palaniswamy	2000	09.03.2008

NAVNEET MISRA, Under Secy.

New Delhi, the 28th March 2011

No. A-22011/1/2011-Ad.-I—The President is pleased to appoint Shri R. Jegajothi, Assistant Engineer (Mechanical), Ports Department, Government of Puducherry, as Additional Private Secretary to the Ministry of State for Personnel, Public Grievances and Pensions (Shri V. Narayanaswamy) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 6,600/- (Grade Pay) with effect from forenoon of 1st March, 2011.

2. His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, or until further orders, whichever is earlier.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2011

No. 5/PA-II/2011—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48-A of CCS Pension rules, Sh. V. B. Dhavle, retired from Junior Administrative Grade of Indian Foreign Service, in the forenoon of 16th February, 2009.

KARTIK PANDE, Under Secy. (FSP)

New Delhi, the 17th March 2011

No. 10/PB-I/2011—On attaining the age of superannuation, Shri B. S. R. Nair (DOP : 27.02.1951), an officer of the Integrated Grades-II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) retired from Government Service in the afternoon of 28th February, 2011.

M. B. VERMA, Admn. Officer (PB-I&III)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 29th March 2011

No. D-III/460/CF-69/2009—The President of India is pleased to recognize the appointment of Shri Purrshottam Bhaggeria as Honorary Consul of the Republic of Moldova in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Shri Purrshottam Bhaggeria comprises the entire territory of India with the seat in New Delhi.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22nd February 2011

No. 15 : (F.No. A-19013/02/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar Singh (IRS : C&CE) as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs of the Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 21.02.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd March 2011

No. 3 of 2011 (F.No. A-32014/01/2008-Ad.-IA)—In pursuance of the Department of Expenditure, CAS's dated 10th February, 2011, the President is pleased to appointment the following Officers as Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) on ad hoc basis with effect from 10.02.2011 and upto 30.06.2011 or till regular Officers becomes available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
	S/Shri/Smt./Kum.
1.	Ravinder Nath
2.	Vimla Motwani
3.	P. S. Rawat
4.	Ms. Jyoti Mirani

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

New Delhi, the 29th March 2011

No. 4/2011 [F.No. A-19011/4/2011-SO(Ad.-IC)CESTAT]—The President is pleased to appoint Dr. P. Babu, Commissioner of Central Excise, Kolkata-IV, Commissionerate as Member (Technical) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Ahmedabad with effect from 21.03.2011 (Forenoon) till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 25th March 2011

No. 10/7/2010-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri R. Vaidyanathan, Deputy Secretary (CSS), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs to the post of Registrar in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- for a period of three years w.e.f. 04.03.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

The 31st March 2011

No. 12/12/2010-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Brij Mohan Singh Rana, Assistant Director, Rajya Sabha Secretariat to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh on deputation basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 25.10.2010 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

No. 11/8/2010-DRT—The Central Government is pleased to appoint Dr. Dipak Talukdar, Law Officer, Animal Husbandry and Veterinary Department, Government of Assam to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Guwahati on deputation basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 26.10.2010 or until further orders, whichever is earlier.

J. S. PHAUGAT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

DEPARTMENT OF COMMERCE

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 28th March 2011

No. A-32014/6/2010-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Saroj Bala Sharma, Steno Grade 'C' of

CSSS of this cadre to the post of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in Supply Division on ad hoc basis for the period upto 30.06.2011 or till the posts are filled up on regular basis or further orders, whichever is earlier, w.e.f. 22nd March, 2011 (forenoon).

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

No. A-32014/6/2010-Cadre—The President is pleased to appoint Smt. Nirmal Abbey, Steno Grade 'C' of CSSS of this cadre to the post of Private Secretary of CSSS in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/-) in Supply Division on ad hoc basis for the period upto 30.06.2011 or till the posts are filled up on regular basis or further orders, whichever is earlier, w.e.f. 22nd March, 2011 (forenoon).

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st March 2011

No. 02/2011 (F. No. 6/2339/2006/HRD-I/1329)—On attaining the age of superannuation Shri A. K. Mehrotra, Foreign Trade Development Officer, DGFT (CSS) in this Office stands retired from Government Service with effect from 31.03.2011 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 31st March 2011

No. 1(1)/2009-Expl.—On attaining the age of superannuation, Shri P.B. Yedla, Chief Controller of Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO), Department of Industrial Policy and Promotion, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon on 31st March, 2011.

A. S. DHALIWAL, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 23rd March 2011

No. A-12011/3/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Asit Singh, IRS [IT : 1990] as Private Secretary to the Minister of State [Petroleum & Natural Gas], Shri R.P.N. Singh, as Director level in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on 'lateral shift' basis with effect from 21.01.2011 for a period upto 09.06.2011, i.e., for the balance period of his combined central deputation tenure of 7 years or on co-terminus basis with the Minister or till

he ceases to be the Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

The 24th March 2011

No. A-32011/1/2007-Estt.—On inclusion of his name for the Select List Year 2009 under zoning scheme for Seniority Quota and in pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/27/2010-CS.II[A] dated 16th March 2011, the President is pleased to appoint Shri Bhoj Singh (SC), Stenographer Grade 'A&B' [Ad-hoc] of CSSS cadre [CSL No. 66/1991] as Steno Grade 'A&B' [Merged] of CSSS cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas in PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- on regular basis.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 25th March 2011

No. A-32011/03/2011-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Y. Thangaraj as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS for the Select List Year 2008 on regular basis in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 01-02-2011 (FN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DOPT's) O.M. No. 5/3/2010-CS.II(A), dated 01-02-2011.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS
NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY

New Delhi, the 31st March 2011

No. 12011/06/2010-Estt. (NPPA)—On attaining the age of superannuation Shri R.K. Jain, Section Officer retires from Government service w.e.f. 31.03.2011 (AN).

OM PARKASH, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 30th March 2011

No. A-22017/1/2011-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2010-CS-I(U) dated 25.01.2011 regarding rotational transfers of Grade-I Officers (Under Secretary) of CSS, the President is pleased to appoint Shri R.B.S. Negi (CSL No. 5704), Under Secretary in the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution to the Grade I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of

Coal in the pay structure PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 25th March, 2011 (FN).

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 29th March 2011

No. P-I/481/2010-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in Senior Principal Private Secretary Grade of CSSS as per Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/12/2010-CS.II (A) dated 14.2.2011, the President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, Senior Principal Private Secretary (ad-hoc) in the Ministry of Mines as Senior Principal Private Secretary grade of CSSS in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 7,600/- for the Select List Year 2010 in this Ministry with effect from 14.2.2011.

NEETA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PD
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 4th April 2011

No. 32013/6/2009-NTH (Estt.)—The President is pleased to promote Shri B.R. Meena, Director Grade-II, National Test House to the post of Director General in the National Test House in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (Pay Band-4) with Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from 28th March, 2011 (F.N.) and until further order.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION

New Delhi, the 31st March 2011

No. A-38012/7/2010-SRA—Shri Sudhanshu Kumar Das, Assistant Director (S&R) (Ad-hoc) Group 'A' General Central Services of Department of Food and Public Distribution, will retire from Government Service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 31st March, 2011.

S. JANAKIRAMAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi 110016, the 31st March 2011

No. A. 19016/01/11-Admn.I(A)—The President is pleased to retire Shri Ram Prakash, Private Secretary in the Department of Science & Technology from Government service on attaining the age of superannuation on 31st March, 2011 (AN).

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

No. A. 19014/01/05-Admn.I(A)—The President is pleased to retire Shri N. K. Gupta, Under Secretary in the Department of Science & Technology from Government service on attaining the age of superannuation on 31st March, 2011 (AN).

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 5th July 2010

No. 22012/88/1999-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select Lists for promotion from State Forest Service of Jammu & Kashmir to the Indian Forest Service for the years 1980 to 2006 prepared in the Selection Committee meeting held on 4th, 5th January, 30th April, 1st & 21st May, 2010 containing the names of following officers of the State Forest Service of Jammu & Kashmir towards filling up of promotion quota vacancies available in Jammu & Kashmir cadre of the Indian Forest Service in pursuance of the direction dated 26.02.2007 of the Hon'ble Supreme Court in CA No. 6660/2000 filed by Shri Vijay Singh Charak :—

SELECT LIST OF 1980

Sl. No.	Name of Officers	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	B.L. Tickoo	25.12.1936
2.	SIH Kazmi	18.02.1937
3.	V.P. Modi	27.05.1939
4.*	SDA Salaria	19.02.1940

*The names at Sl. No. 4 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST OF 1981

Sl. No.	Name of Officers	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	V.P. Modi	27.05.1939
2.*	SDA Salaria	19.02.1940
3.	M.A. Kawoosa	27.11.1945
4.	G.H. Siddiqui	03.06.1941

*The names at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST OF 1982

Sl. No.	Name of Officers	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.*	SDA Salaria	19.02.1940
2.	V.P. Modi	27.05.1939
3.	M.A. Kawoosa	27.11.1945
4.	G.H. Siddiqui	03.06.1941

*The names at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST OF 1983

Sl. No.	Name of Officers	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.*	SDA Salaria	19.02.1940
2.	Shafat Ahmad	12.11.1950
3.	S.K. Khajuria	22.04.1951
4.	V.P. Modi	27.05.1939
5.	S. P. Khajuria	02.12.1940
6.	M.A. Kawoosa	27.11.1945
7.	G.H. Siddiqui	03.06.1941
8.*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
9.	B. K. Sharma	26.07.1938
10.	Abdual Rashid Kema	01.08.1944
11.	Shahnaz Naqashbandi	25.03.1945
12.	Y.S. Narsinghia	24.04.1939
13.	S.C. Sharma	28.09.1939
14.*	S.S. Bali	15.08.1945
15.	A.R. Wadoo	28.03.1944
16.	V.K. Zaddo	15.07.1946
17.	Chander Mohan Seth	02.03.1949

*The names at Sl. No. 1, 8 and 14 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

SELECT LIST OF 1984

Sl. No.	Name of Officers	Date of Birth
	(S/Shri)	
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
1.	S.C. Sharma	28.09.1939
2.*	S.S. Bali	15.08.1945

*The names at Sl. No. OA, OB and 2 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA and OB have been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1985

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
1.	S. C. Sharma	28.09.1939
2*	S. S. Bali	15.08.1945

*The names at Sl. No. OA, OB and 2 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA and OB have been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1986

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Mohd Shafi	13.03.1932
1A*	SDA Salaria	19.02.1940
1B*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
2.	S. C. Sharma	28.09.1939
3*	S. S. Bali	15.08.1945
4.	A. R. Wadoo	28.03.1944

*The names at Sl. No. 1A, 1B and 3 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. 1A and 1B have been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1987

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
1*	S. S. Bali	15.08.1945
2.	A. R. Wadoo	28.03.1944

*The names at Sl. No. OA, OB and 1 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA and OB have been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1988

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
1*	S. S. Bali	15.08.1945
2.	A. R. Wadoo	28.03.1944

*The names at Sl. No. OA, OB and 1 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA and OB have been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1989

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1.	Mukherjeet Sharma	28.09.1954
1A*	SDA Salaria	19.02.1940
1B*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
1C*	S. S. Bali	15.08.1945
2.	A. R. Wadoo	28.03.1944
3.	V. K. Zadoo	15.07.1946
4.	Chander Mohan Seth	02.03.1949
5.	Shamim Mohd. Khan	20.12.1951
6.	Peer Bashir Ahmad Qadri	18.11.1944
7.	Subhash Chander	30.04.1952
8.	Suraj Prakash Sharma	13.10.1956

*The names at Sl. No. 1A, 1B and 1C have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. They have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1990

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
OC*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	Shamim Mohd. Khan	20.12.1951
2.	Peer Bashir Ahmad Qadri	18.11.1944
3.	Subash Chander	30.04.1952
4.	Suraj Prakash Sharma	13.10.1956
5.	Harinder Singh Salathia	27.04.1954
6.	Upinder Pachnanda	25.09.1955
7.	AB Qayoom Khan	10.02.1952
8.	Mohd. Shafiq Khan	17.05.1953
9.	Manuraj Singh	20.07.1954
10.	Lalit Kr. Sharma	25.02.1955
11.	Manzoor Ahmad	11.04.1953
12.	Mohd. Hussain	10.03.1954
13.	Hafizullah Sidiqi	18.05.1953
14.	Mahesh Chander	18.05.1956
15.	Arun Kumar	14.11.1956
16.	Asghar Inayatullah	15.04.1952
17*	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
18.	A. R. Lattoo	31.03.1944
19.	J. B. Singh	01.01.1948

The names at Sl. No. OA, OB, OC and 17 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA, OB and OC have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1991-92

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
OC*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	Vijay Singh Charak	05.02.1954
2.	Asghar Inayatullah	15.04.1952
3*	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954

*The names at Sl. No. OA, OB, OC and 3 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at Sl. No. OA, OB and OC have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1992-93

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
OC*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	Ashok Kumar Gupta	01.07.1949
2.	Asghar Inayatullah	15.04.1952

*The names at Sl. No. OA, OB and OC have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. They have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1993-94

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1	2	3
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
OC*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	Ashok Kumar Gupta	01.07.1949
2.	Asghar Inayatullah	15.04.1952
3*	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
4.	A. R. Lattoo	31.03.1944

*The names at Sl. No. OA, OB and OC and 3 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at S. No. OA, OB and OC have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1994-95

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
OB*	M.A. Sohrawardy	27.12.1939
OC*	S. S. Bali	15.08.1945
1*	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954
2.	A. R. Lattoo	31.03.1944

*The names at Sl. No. OA, OB and OC and 1 have been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government. The names of the officers at S. No. OA, OB and OC have also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1994-95—No Vacancy

SELECT LIST OF 1995-96

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
1.	A. R. Lattoo	31.03.1944
2.	Nissar Ahmad Darzi	27.04.1958
3.	Nissar Hussain Hakim	01.10.1952

*The names at Sl. No. OA has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt. and has also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1996-97

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
1	2	3
(S/Shri)		
OA*	SDA Salaria	19.02.1940
1.	Nissar Ahmad Darzi	27.04.1958
2.	Nissar Hussain Hakim	01.10.1952

1	2	3
(S/Shri)		
3.	B. L. Zadoo	10.11.1951
4.	M. A. Tak	15.07.1954
5.	R. S. Jasrotia	22.08.1956
6.	Ashwani K. Gupta	25.08.1958
7.	M. M. Gupta	22.10.1954

*The names at Sl No. OA has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt. and has also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 1998

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
OA*	S. S. Bali	15.08.1945
1#.	Ajaz Ahmad Bhat	15.05.1954

*The names at Sl No. OA has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt. and has also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

#The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt.

SELECT LIST OF 1999

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	V. K. Raina	20.12.1952
2.	S. K. Kohli	24.08.1957
3.	Farooq Ahmed Gilani	18.04.1961
4.	Javed Iqbal Panjoo	01.10.1958

SELECT LIST OF 2000

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Ashok Kumar Misra	12.09.1950
2.	A. G. Hajam	06.06.1959
3.	Narinder Singh	21.01.1953

SELECT LIST OF 2001

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
0A*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	M. A. Hakak	08.03.1949
2.	S. A. Hydri	09.03.1955

*The names at Sl No. 0A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt. and has also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 2002

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
0A*	S. S. Bali	15.08.1945
1.	A. R. Hazari	02.06.1956

*The names at Sl No. 0A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Govt. and has also been included in addition to normal size of the Select List in accordance with the 2nd Proviso to Regulation 5(4) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulation, 1966.

SELECT LIST OF 2003—No Vacancy

SELECT LIST OF 2004—No Vacancy

SELECT LIST OF 2005

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	G. D. Chalotra	20.10.1956
2.	M. P. Dogra	10.04.1957
3.	Mohd. Manzoor Hussain	01.05.1953

SELECT LIST OF 2006

Sl. No.	Name of Officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	B. K. Bhagat	11.04.1954
2.	Mian Javid Hussain	01.03.1957
3.	Sameer Bharti	28.01.1960

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi-110003, the 9th March 2011

CORRIGENDUM

No. 2-64/2001-FE—In partial modification of this Ministry's notification number 2-64/2001&FE dated 11.02.2011 the date of promotion of Dr. Y. P. Singh from Scientist 'D' to the post of Scientist 'E' in the Scale of Pay of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- under Flexible Complementing Scheme, in ICFRE, Dehradun may be read as "30.12.2010" in place of "31.12.2010".

MALTI RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 29th March 2011

No. A.12025/11/2008-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Mohit K. Patralekh to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- Grade Pay (PB-3) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 24.11.2010 until further orders. Dr. Mohit Kumar Patralekh is posted as Medical Officer under Central Health Scheme, Delhi. Dr. Patralekh shall be on probation for two years from the date of appointment.

O. P. SHARMA, Under Secy.

No. A.12025/145/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kshirsagar Ashwini Machhindra to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- Grade Pay (PB-3) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11.05.2010 or until further orders. Dr. Kshirsagar Ashwini Machhindra is posted as Medical Officer under Central Health Scheme, Mumbai. Dr. Kshirsagar shall be on probation for two years from the date of appointment.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 31st March 2011

No. A.12025/50/2009-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Krishna Biswas to the post of Assistant Professor in the speciality of Endocrinology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Scheme, on probation with effect from the forenoon of 10.01.2011 or until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st April 2011

No. A-22012/1/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/21/2010-CS-II dated 31st December, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Kalpana Goel, a regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographers Service (CSSS) as Stenographer Grade 'A&B' (merged) of CSSS (PS) on Ad-hoc basis in the Ministry of Minority Affairs, in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 1st April, 2011 (F/N). The period of ad hoc promotion would be upto 30th June, 2011 or till the regular Stenographer Grade 'A&B' (merged) of CSSS (PS) is made available, whichever is earlier.

GOPAL DASS, Director (Admn.)

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi, the 5th April 2011

No. 15-6/2008-Estt.—On attaining the age of superannuation, Sh. M. K. Khanna, IAS (RJ : 1974) has relinquished charge of the office of Secretary to the Government of India, National Commission of Minorities with effect from 31st March, 2011 (Afternoon).

A. K. NIGAM, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st March 2011

No. 4(804)/2009-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Chander Prabha Sethi, Section Officer (NFSG), (Emp Code-339), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.03.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4(851)/2010-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Shri Bhupender Singh Rawat, Section Officer (NFSG), (Emp Code-328), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.03.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

No. 4(330)/2010-Pers.I—On attaining the age of superannuation, Dr. (Mrs.) B. Vasanta, Scientist 'F' (Emp Code-154), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from service on 31.03.2011.

R. K. MANCHANDA, Jt. Dir.

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110116, the 25th February 2011

No. 13-2/2011-SPG—Shri S. Samant (IPoS-1974), Member (Technology), Postal Service Board, Department of Posts, Dak Bhawan, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service w.e.f. 28.02.2011.

B. P. Pant, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th March 2011

No. ERB-I/2010/2/59—The President is pleased to appoint Shri Sanjoy Mookerjee, SAG/IRAS, Executive Director, Finance (Expenditure) as Adviser, Finance (Expenditure), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from the forenoon of 28.01.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 1st April 2011

No. ERB-I/2008/2/26—The President is pleased to appoint Shri Kamlesh Gupta, HAG/IRTS, Adviser (Tourism & Catering), Railway Board as Additional Member (Tourism & Catering), Railway Board on promotion in Grade of Rs. 75,500—80,000/- with effect from the forenoon of 11.03.2011.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 10th March 2011

No. A-12023/4/2011-E-I—The President is pleased to appoint Shri Rajinder Parshad, Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, as Assistant Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri Jitin Prasad) in Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- Grade Pay on co-terminus basis w.e.f. 20.01.2011 (F.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-12023/3/2011-E-I—The President is pleased to appoint Shri Manoj Purshottambhai Thakore as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Dr. Tushar A. Chaudhary) in Pay Band-3 : Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on co-terminus basis w.e.f. 04.02.2011 (F.N.) until further orders or till the Minister desires his services or demits the office, whichever is the earliest.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-19011/10/2005-E-I—In continuation of this Ministry's notification No. A-19011/10/2005-E-I dated 05.10.2010 and in pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training's Order No. 27/39/2010-EO(SM.I) dated 04.03.2011, the President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Saroj Kumar Dash, IAS (HP : 80) as Joint Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways for a period of 2 months and 3 days beyond 27.02.2011 i.e. upto 30.04.2011 or until further orders, whichever is earlier.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-19011/4/11-E-I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/3/JAG/2010/ISS dated 11.12.2010, the President is pleased to appoint Shri Hansraj Yadav, an officer of Indian Statistical Service (ISS) as Joint Director in the Ministry of Road Transport & Highways on his ad hoc promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 04.03.2011 (Forenoon).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 30th March 2011

No. 2/2011 (F. No. A-35018/2/2009-Adm.I)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 70 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the President is pleased to appoint Shri Gurdial Singh, Member (Hydro) Central Electricity Authority, to the post of Chairperson in the Central Electricity Authority in the scale of Pay of Rs. 80,000/- (Fixed) with the ex-officio status of Secretary to the Government of India, on deputation basis with effect from

25.03.2011 till the date of superannuation i.e. 30.06.2011, or until further orders, whichever event occurs earlier.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th February 2011

No. 01/2011 (F. No. 2/1/2011-Adm.)—The President is pleased to appoint Shri Alok Singh, IPS (UP : 95) as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Water Resources (Shri Salman Khurshid) at the level of Director, 'on lateral shift' basis with effect from 20th January, 2011, (FN) i.e. with effect from the date of assumption of charge of the post, upto the balance period of his deputation tenure of five years at the Centre, i.e. upto 14.02.2015 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earliest.

N. K. GUPTA, Under Secy.

The 25th February 2011

No. 2/2011 (F. No. 5/11/2008-Adm.)—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) for the year 2009, the President is pleased to appoint Ms. C. Jenny Raj, a regular Private Secretary of the CSSS cadre of the Ministry of Water Resources to the Grade of Principal Private Secretary of CSSS (Pay Band 3 of Rs.15,600—39,100 + 6,600/- Grade Pay) on regular basis with effect from 01.02.2011, in pursuance of DoPT's O.M. No. 5/3/2010-CS.II (A) dated 1st February, 2011.

2. The seniority of Ms. C. Jenny Raj for the Select List Year 2009, will be in the same order in which her name has been arranged, in the aforesaid DoPT's O.M. dated 1st February, 2011, irrespective of actual date of her appointment to the grade of Principal Private Secretary.

N. K. GUPTA, Under Secy.